

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक  
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)  
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 166]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 13 मार्च 2020 — फाल्गुन 23, शक 1941

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग  
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 13 मार्च 2020

अधिसूचना

क्र. एफ 1-25/2020/17-1.— राज्य शासन एतद्वारा, भारत के विभिन्न भागों में नोवल कोरोना (COVID-19) के संक्रमण से स्वास्थ्य व जीवन की सुरक्षा के खतरे की उत्पन्न हुई स्थिति के परिपेक्ष्य में छत्तीसगढ़ में संक्रमण की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश के समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों तथा सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षकों को छत्तीसगढ़ पब्लिक हेल्थ एक्ट, 1949 की धारा 71 की उप-धारा (2) में प्रावधानित समस्त अधिकार प्रदत्त किये जाते हैं।

उपरोक्त अधिकार आगामी आदेश तक प्रभावी होंगे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
निहारिका बारिक सिंह, सचिव.